



A Hesi

K

30/04/20

District Judge  
MADABAJ

प्रेषक,

रघुबर सिंह,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-9, मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मुरादाबाद।

विषय:- पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर निवेदन करना है कि मुझ रघुबर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-9, मुरादाबाद द्वारा अपना स्वयं का, पत्नी श्रीमती अनामिका सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष (Anamika Singh), पुत्री आयुषी सूर्यवंशी, उम्र लगभग 14 वर्ष (Aayushi Suryavanshi) एवं पुत्र कुव्वर आयुष प्रताप सिंह सूर्यवंशी, उम्र लगभग 8 वर्ष (Kunwar Ayush Pratap Singh Suryavanshi) का पासपोर्ट बनवाना है, जिसके लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र एवं स्वयं का फोटो मेरे द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त वर्णित पासपोर्ट बनवाये जाने के सम्बन्ध में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु, प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने की कृपा की जाये।

सादर ।

दिनांक: 30-04-2024

भवदीय  
Raghubar Singh  
30/04/24  
(रघुबर सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-9, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद।

पत्रांक 819 /2024(प्रशा०)मुरादाबाद, दिनांक: 30/4/24

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित ।

जनपद न्यायाधीश  
30/04/24  
DI: मुरादाबाद  
MURADABAD







- (b) That the applicant would not, or is not likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
- (c) That the departure of the applicant from India would not, or is not likely to, be detrimental to the security of India.
- (d) That the presence of the applicant outside India would not, or is not likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
- (e) That the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, not being convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.
- (f) That proceedings in respect of any offence alleged to have not been committed by the applicant are pending before a criminal court in India.
- (g) That a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court.
- (h) That the applicant has not been repatriated.
- (i) There is no possibility of arising embarrassing position before Government of U.P. due to his visit to any foreign country.
- (j) Issue of Identity Certificate for obtaining a passport was never refused to me.
- (k) That the applicant has never visited any foreign country earlier.



Deponent  
*Raghubar Singh*  
 30/04/24

Deponent  
*Raghubar Singh*  
 30/04/24

...with a declaration...  
 of Shri/ Smt/Em...  
 as certified by...  
 that he/she understands the contents of...  
 and the...  
*[Signature]*

Identified  
*[Signature]* Adl  
 30/4/24  
 AJAI VEER SINGH T...  
 Ch. No. 34 Advocate  
 Moradabad

*[Signature]*  
 30/4/2024  
 Notary Public  
 Regd. No. 1668